

SKIPPER Limited
CIN: L40104WB1981PLC033408
Registered Office: 3A, Loudon Street, Kolkata - 700 017, India
Phone: 033-22895731, Fax: 033-22895733
Email: investor.relations@skipperlimited.com, Website: www.skipperlimited.com

NOTICE TO THE MEMBERS

a. NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of Skipper Limited is scheduled to be held on **Monday, 28th September, 2020 at 2.30 pm (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No 14/2020, No. 17/2020 and No. 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 respectively and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020. The Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the manner of taking part in e-voting process forms part of the notice convening the AGM.

b. In compliance with the above circulars, soft copies of the Notice convening the 39th AGM ("Notice") and the Annual Report for the financial year 2019-20 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited ("MDPL") Depository Participants. The Notice will also be available on the Company's website at www.skipperlimited.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

c. Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their email address are requested to register the same on MDPL's online portal <http://mdpl.in/form/email-update> by following the instructions mentioned therein, to receive the Notice, Annual Report and login ID/ password for e-voting. d. Members holding shares in physical mode and who have not yet updated their mandate for receiving dividend directly into their bank accounts through any RBI approved electronic mode of payment may register the same on MDPL's online portal <http://mdpl.in/form/nach-mandate> by following the instructions mentioned therein.

However, in case the Company is unable to transfer the dividend entitlements directly through the RBI approved electronic mode(s), the Company shall dispatch the Dividend Warrants/Demand Draft to such members, upon normalization of postal services.

e. Members holding share in demat mode should update their email addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants.

f. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 22nd September, 2020 to Monday, 28th September, 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of members who would be entitled to receive dividend, if approved at the AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

For Skipper Limited
Manish Agarwal
Place: Kolkata
Date: 18 August, 2020
(Company Secretary & Compliance Officer)

INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED
Registered Office: "Travel House" T-2, Community Centre, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110 017
CIN : L63040DL1981PLC011941
Tel : +91 11 26017808 E-mail : Investor_TH@ith.co.in
Website : www.internationaltravelhouse.in

NOTICE

Members are hereby informed that despatch of the Notice of the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company convened for the 11th September, 2020 and the Report and Accounts for the financial year ended 31st March, 2020 to the Members of the Company has been completed on 18th August, 2020 in conformity with the regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 39th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") have been engaged by the Company.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e. 5th September, 2020** will be entitled to cast their votes by remote e-voting or e-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM as for information purposes only.

Remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on **8th September, 2020 and ends at 5.00 p.m. on 10th September, 2020**, when remote e-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once again.

Persons who become Members of the Company after sending of the Notice of the AGM but on or before the **cut-off date** may write to CDSL at evoting@cdsl.co.in or to the Company at Investor_TH@ith.co.in in requesting for user ID and password for remote e-voting or e-voting during the AGM. Members already registered with CDSL for remote e-voting should however use their existing User ID and password for this purpose.

In case of any query / grievance, Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting Manual for Members available under the help section of CDSL's e-voting website www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalmi, Manager, CDSL, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or at e-mail ID helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone no. 1800 225 533.

Queries/grievances may also be sent to the email ID Investor_TH@ith.co.in.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 39th AGM. The declared Results, alongwith the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website www.internationaltravelhouse.in under the section "Investor Relations" under "Shareholder Value" and on CDSL's e-voting website www.evotingindia.com. Such Results will also be forwarded by the Company to the BSE Limited ("BSE"), where the Company's Shares are listed.

The Notice of the 39th AGM is available on the Company's website (www.internationaltravelhouse.in), CDSL's e-voting website (www.evotingindia.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com).

International Travel House Limited
Vivek Kumar
Date: 18th August, 2020
Company Secretary

Nippon India Mutual Fund
Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
(CIN - L65910MH1995PLC220793)
Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000 • Fax No. +91 022 6808 7097 • www.nipponindiamf.com

NOTICE NO. 50 **Record Date**
DIVIDEND DECLARATION
August 24, 2020

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved declaration of dividend on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted scheme of NIMF, with August 24, 2020 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Dividend (₹ per unit)*	NAV as on August 17, 2020 (₹ per unit)
Nippon India Arbitrage Fund - Dividend Plan - Monthly Dividend Option	0.0300	10.7633
Nippon India Arbitrage Fund - Direct Plan - Dividend Plan - Monthly Dividend Option		11.2721

*Income distribution will be done/dividend will be paid, net of tax deducted at source, as applicable.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend plan/option of the Scheme as on record date.

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai
August 18, 2020

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
Regd. Office : NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009
Tel : 66112222 Fax : 27468042 Email : TPDDL@tatapower-dcl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, Website : www.tatapower-dcl.com

NOTICE INVITING TENDERS August 19, 2020

TATA Power-DCL invites tenders as per following details.

Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/200001236/20-21 1. Standard Fire & Special Perils 2. Burglary Insurance	130 Lac/- EMD-NIL	19.08.2020	08.09.2020; 1500 Hrs/ 09.09.2020; 1200 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-dcl.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

MBL Infrastructures Ltd.
CIN: L27109DL1995PLC338407
Corp. & Regd. Office: Baani Corporate One Tower, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, District Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025
Tel : +91- 011 48593300, Fax : +91-11-4859 3320,
email : cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No.14/2020 dated the 08th April 2020, General Circular No.17/2020 dated the 13th April, 2020 and General Circular No.20/2020 dated the 05th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Notice for the forthcoming Annual General Meeting (AGM) of the Company including Annual Report for the financial year ended 2019-20 shall be provided to the Shareholders (Members) of the Company only through the electronic mode.

The Company will be sending the AGM Notice along with Annual Report for financial year 2019-20 electronically to those members who have registered their email IDs with the Company / Depository Participants and /or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent in compliance with MCA Circulars. Members holding equity shares in physical form who have not registered their email ID may get the same registered with Company / RTA by sending their email ID to info@mblinfra.com or delhi@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialized mode are also required to update their email ID with their Depository Participant. Details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM will be provided in the AGM Notice.

For MBL Infrastructures Ltd.
Anubhav Maheshwari
Place : New Delhi
Date : 18.08.2020
Sd/-
Company Secretary

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	ESS DEE Aluminium Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	10/02/2004
3. Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	ROC-Kolkata
4. Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	L27203WB2004PLC170941
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	1, Sagore Dutta Ghat Road Kamarhati Kolkata Kolkata West Bengal-700058 ESS DEE House, Akuri Road, Kandivali, East Mumbai.
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	14/02/2020
7. Date of invitation of expression of interest	19/08/2020
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	insolvencyandbankruptcy.in (This is the website of IPE of Resolution Professional)
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	insolvencyandbankruptcy.in (This is the website of IPE of RP)
10. Last date for receipt of expression of interest	31/08/2020
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	06/09/2020
12. Last date for submission of objections to provisional list	11/09/2020
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	21/09/2020
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	08/09/2020
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution professional will share the Request for Resolution Plan/ Evaluation Matrix/ Information Memorandum in electronic form after verification of KYC, capacity to invest, capability to manage and eligibility under Section 29A of IBC, 2016 and pre-qualification criteria, if any approved by COC
16. Last date for submission of resolution plans	08/10/2020
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form to the email ID mentioned against serial no. 21.
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as approved by members of Committee of Creditors (COC)
19. Name and registration number of the resolution professional	Mrs. Deepika B. Prasad IP Registration No. IBBI/IPA-003/IP-NO00110/2017-2018/11196
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Mrs. Deepika B. Prasad 202, Samrat Ashok Enclave, Sector-18A, Plot No. 6, Dwarka New Delhi National Capital Territory Of Delhi, 110075 E-mail id: deepika_bhugra@gmail.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Mrs. Deepika B. Prasad Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash 1, New Delhi 110048 essdee@saainsolvency.com deepika_bhugra@gmail.com
22. Further Details are available at or with	www.insolvencyandbankruptcy.in (This is the website of IPE of RP)
23. Date of publication of Form G	19/08/2020

Deepika B. Prasad
AAA Insolvency Professionals LLP
Resolution Professional
In the matter of ESS DEE Aluminium Limited
IBBI/IPA-003/IP-NO00110/2017-2018/11196
Email id: deepika_bhugra@saainsolvency.com, essdee@saainsolvency.com
Contact Details: E- 10A, Kailash Colony, Greater Kailash 1, New Delhi - 110048
Contact No. : 011-46664600

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LTD.
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of Maharashtra)
PUNE METRO RAIL PROJECT
101, The Orion, Opposite Don Bosco Youth Centre, Koregaon Park, Pune - 411001. Telephone: 020-26051072
E-mail: mahametro.tenders@gmail.com | www.punemetrorail.org

Tender Notice No. P1Misc-26/2020 Dated: 19.08.2020

Name of the Work: Providing services of Quick Response Team (QRT) cum Rescue Team in Reach-1, Reach-2 and Reach-3 of Pune Metro Rail Project for a period of One Year for Maha-Metro.

Completion Period: 12 (Twelve) Calendar Months. **Cost of Documents:** INR 11,800/- (INR Eleven Thousand Eight Hundred Only) incl. GST. **Tender Security:** INR 1,50,000 (INR One Lakh Fifty Thousand Only)

Interested bidders may visit Pune Metro Rail website www.punemetrorail.org or download the bidding documents and obtain further details regarding the tender from our e-tender portal <https://mahametrorail.etenders.in> from 16:00 Hrs. on 21/08/2020.

Executive Director
(Procurement & Contracts)
MAHA-METRO

Maha Metro, Greenest Metro

IR Ingersoll Rand
INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED
CIN : L05190KA1921PLC036321
Regd Office : First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1, Bannerghatta Road, Bangalore - 560 029.

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Ingersoll Rand (India) Limited will be held on **Monday, August 24, 2020** inter alia, to take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED
P. R. SHUBHAKAR
General Manager- Corp. Finance and Company Secretary

HAILEYBURIA TEA ESTATES LTD.
Regd. Office : 24/432, Marar Road, Willingdon Island, Cochin - 682 003
CIN : L01132KL1923PLC000415
Phone : (0484) 2667653
E-mail : chinnaarte@aol.com
Website : www.chinnaarte.com

NOTICE

Notice is hereby given for the meeting of the Board of Directors of the Company, which will be held on Friday, 28th August, 2020 at 02.30 pm at the Registered Office of the Company at 24/432, Marar Road, Willingdon Island, Kochi - 682003, inter alia to consider and to take on record of the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter Ended on 30th June, 2020.

For HAILEYBURIA TEA ESTATES LTD.
Place : Kochi Sd/- Ashok Kumar Dugar
Date : 18.08.2020 Managing Director

SUZLON ENERGY LIMITED
(CIN: L40100GJ1995PLC025447)
Regd. Office: "Suzlon", 5, Shrimati Society, Near Sri Krishna Complex, Navrangpura, Ahmedabad-380009; Tel.: +91 79 6604 5000; Fax: +91 79 2656 5540;
website: www.suzlon.com;
email id: investors@suzlon.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 24th August 2020 to inter alia, consider and approve the unaudited Financial Results of the Company on Standalone and Consolidated basis for the quarter ended on 30th June 2020.

For Suzlon Energy Limited
Sd/-
18th August 2020 Geetanjali S.Vaidya,
Pune Company Secretary.

Rohit Ferro-Tech Limited
(Under Corporate Insolvency Resolution Process)
Regd. Office: 35, C.R. Avenue, 4th Floor, Kolkata-700 012.
Phone No. +91-33-22110225
Corporate Office: "SKP HOUSE", 132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026
Phone No. +91-33-40168000/8100
Fax: +91-33-40168170
Website: www.rohitterrotech.com,
Email: cs@rohitterrotech.com
CIN: L27104WB2000PLC091629

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Resolution Professional with Directors and Key Managerial Personnel of the Company is rescheduled to be held on Wednesday, 26th August, 2020, inter-alia, to consider and approve among other matters, the Audited Financial Results, both on standalone and consolidated basis for the quarter and year ended on 31st March, 2020.

For Rohit Ferro-Tech Limited
Sd/-
18th August, 2020 A. P. Shaw
Kolkata Company Secretary

multibase
MULTIBASE INDIA LIMITED
Regd. Office: 74/5 B, Daman Industrial Estate, Kadiyala Village, Nani Daman, Union Territory, DO - 395 210 CIN: L01122DD1991PLC002959
Tel: 0260-6614400 Fax: 0260-2221578
E-mail: compliance.officer@multibaseindia.com
Website: www.multibaseindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 27, 2020 inter alia to consider, approve and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

Further, in terms of the Company's Code of Conduct and SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in securities of the Company by its designated persons, shall open from Monday, August 31, 2020.

For more details please visit the website of the Company i.e. www.multibaseindia.com and the Stock Exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

For Multibase India Limited
Sd/-
Sunaina Goraksh
Place: Mumbai Company Secretary
Date: 19.08.2020 Mem. No.: A27934

PRE-OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (7) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

BERYL SECURITIES LIMITED
(CIN: L67120MP1994PLC008882)
Registered Office: 133, Ground Floor, Kanchan Bagh, Indore - 452001, Madhya Pradesh.
Tel: +91 0731-2517677 | Fax No.: +91731 2517677 | Email Id: berylsecurities@gmail.com | Website: www.berylsecurities.in

This Advertisement ("Pre-Offer Advertisement") is being issued by First Overseas Capital Limited ("Manager to the Offer" / "Manager"), for and on behalf of the Mrs. Sangita Sethi (Acquirer 1), Mr. Sanjay B Sethi HUF (Acquirer 2), Mr. Sanjay Sethi (Acquirer 3), Mr. Sudhir B Sethi HUF (Acquirer 4), Mr. Sudhir B Sethi (Acquirer 5), Mr. Babulal Sethi (Acquirer 6), Mr. Babulal Sethi HUF (Acquirer 7), Mrs. Soniya Sethi (Acquirer 8), Mr. Sohil Sethi (Acquirer 9) and Mrs. Tara Sethi (Acquirer 10) (collectively referred to as "The Acquirers"), pursuant and compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011, as amended from time to time ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of Open Offer ("Offer") to acquire upto 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred and Twenty Two Only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares") representing 26.00% of the fully diluted voting equity share capital of the Beryl Securities Limited ("Target Company") and under Regulations 3(1) and 3(4) and other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 to the Public Shareholders of the Target Company at an Offer Price of: a) ₹ 18.73/- (Rupees Eighteen and Seventy Three Paise Only) per Equity Share inclusive of interest amounting to ₹ 7.79 (Rupees Seven and Seventy Nine paise Only) per Equity Share payable to all the Equity Shareholders in respect of Equity Shares held by them in the Target Company as on May 17, 2013 and which are continued to be held as on date and are validly tendered/accepted in the Open Offer.

b) ₹ 10.94 (Rupees Ten and Ninety Four Paise Only) per Equity Share is the Offer Price payable to all the Equity Shareholders in respect of the remaining Equity Shares not falling under (a) above which are validly tendered/accepted in the Open Offer.

This Pre-Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with the a) Public Announcement ("PA") dated January 23, 2020; b) Detailed Public Statement ("DPS") dated January 29, 2020 published in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), Financial Express (Gujarati, Ahmedabad edition), and Raj Express (Hindi, Indore Edition) on January 30, 2020, Thursday; c) Letter of Offer ("LOF") dated August 12, 2020, d) Corrigendum Advertisement to the PA, DPS and Draft Letter of Offer ("DLOF") dated August 13, 2020 published on August 14, 2020; Friday in the same newspapers where the DPS was published; e) Dispatch Advertisement dated August 14, 2020 published on August 15, 2020; Saturday in the same newspapers where the DPS was published with respect to the aforementioned Open Offer.

Unless otherwise defined herein, the capitalized terms used but not defined in this Pre-Offer Advertisement have the meaning assigned to them in the PA, DPS, DLOF and LOF. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged.

(1) Offer Price:

- The Offer Price will be paid in Cash in accordance with the Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS, DLOF and LOF.

- Under the directions of SEBI order number WTM/GM/EFD/43/2017-18 dated August 24, 2017, an interest at the rate of 10% per annum from August 07, 2013 (being the estimated date of payment of consideration had the Acquirers made the PA on May 17, 2013) till September 17, 2020 (being the last date of payment of consideration to the shareholders under the present open offer) shall be payable to all the Public Shareholders who were holding equity shares as on the trigger date (had the Acquirers made the PA on May 17, 2013) and continue to hold equity shares as on date.

- There has been no revision in the Offer Price as on the date of publishing this advertisement.

- The Offer Price payable to the Eligible Public Shareholder whose equity shares have been validly tendered and accepted in the Open Offer is:

a) ₹ 18.73/- (Rupees Eighteen and Seventy Three Paise Only) per Equity Share inclusive of interest amounting to ₹ 7.79 (Rupees Seven and Seventy Nine paise Only) per Equity Share payable to all the Equity Shareholders in respect of Equity Shares held by them in the Target Company as on May 17, 2013 and which are continued to be held as on date and are validly tendered/accepted in the Open Offer.

b) ₹ 10.94 (Rupees Ten and Ninety Four Paise Only) per Equity Share is the Offer Price payable to all the Equity Shareholders in respect of the remaining Equity Shares not falling under (a) above which are validly tendered/accepted in the Open Offer.

- For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 6.1 (Justification of Offer Price) beginning on page 32 of the LOF.

(2) Recommendations of the Committee of Independent Directors of Beryl Securities Limited: A Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommends that the Offer Price as mentioned above in point 1 is fair and reasonable. The recommendation of IDC on the Offer was published on August 18, 2020 (Tuesday) in the same newspapers where the DPS was published.

(3) This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired.

(4) Dispatch of LOF:

- The electronic dispatch of LOF dated August 12, 2020 ("LOF") along with the Form of Acceptance cum acknowledgement and Share Transfer form to all the Public Shareholders of the Target Company (holding Equity shares in physical and/or dematerialized form), whose name appeared on the register of members of the Target Company, as of the Identified Date i.e. Friday, August 07, 2020, and who had registered their email IDs with the Depositories and/or the Target Company and/or Registrar to the Offer has been completed on August 13, 2020; Thursday, in light of the relaxations granted by SEBI vide its circular no. SEBI/CIR/CFD/DCR/1/CIR/P/2020/83, dated May 14, 2020.

- The Public Shareholders who have not registered their email IDs with the Depositories / the Target Company/ Registrar to the Offer, the LOF has been dispatched through physical mode by registered post / speed post latest by August 14, 2020; Friday.

- Further, the Dispatch Advertisement dated August 14, 2020 for awareness was published on August 15, 2020; Saturday in the same newspapers where the DPS was published. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LOF was to be sent.

- It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) of Equity Shares are eligible to participate in the Offer any time prior to the Offer Closing Date.

(5) Please note that a copy of the LOF along with the Form of Acceptance cum acknowledgement and Share Transfer form will be available on SEBI's website- www.sebi.gov.in, BSE's website- www.bseindia.com, Manager to the Offer's website- www.focl.in, Target Company's website- www.berylsecurities.in and RTA's website- www.adroitcorporate.com. Public Shareholders can download / print the LOF along with the Form of Acceptance cum acknowledgement and Share Transfer form from any of the aforementioned websites. For details on procedure for tendering the Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer, please refer to paragraph 8.16 on page 41 of the Letter of Offer.

(6) The Open Offer is being implemented by the Acquirers through Stock Exchange Mechanism made available by Stock Exchanges, in this case the Designated Stock Exchange being BSE Limited ("BSE") in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015, read with the SEBI Circular GFD/DCR/2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, and notices / guidelines issued by the Stock Exchanges and the Clearing Corporation in relation to the mechanism/process for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to the tender offers under Takeovers, Buy-back & Delisting, as amended and updated from time to time. Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" beginning on page 37 of the LOF in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

(7) Instructions for Public Shareholders:

In case the Equity Shares are in physical form: In accordance with the Frequently Asked Questions issued by SEBI, "FAQs - Tendering of physical shares in Buyback Offer / Open Offer / Exit Offer / Delisting" dated February 20, 2020, the public shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Public Shareholders who are holding physical equity shares are required to follow the procedure as mentioned in paragraph 8.13 on page no. 40 of the LOF.

In case the Equity Shares are in dematerialized form: An Eligible person may participate in the Open Offer by approaching their broker/selling member and tender shares in the open offer as mentioned in the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" beginning on page 37 of the LOF.

(8) In terms of Regulation 16(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the DLOF had been submitted to SEBI on February 06, 2020. The final observations letter from SEBI was received on August 05, 2020 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the observations have been duly addressed and incorporated in the LOF.

(9) There have been no other material changes in relation to the Open Offer except for the upward revision in Offer Price and change in empowering, operating and realizing the funds lying in the Escrow account and Special Escrow Account, since the date of the PA, DPS and DLOF, save as otherwise disclosed in the PA, DPS, DLOF and LOF. The corrigendum to the PA, DPS and DLOF was published on August 14, 2020; Friday in the same newspapers where the DPS was published.

(10) As on the date of the LOF, to the best knowledge of the Acquirers, there are no other statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer except as disclosed in the LOF. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. For further details on statutory and other approvals, the Public Shareholders must refer to paragraph 7.4 on page no. 36 of the LOF.

(11) The Revised Schedule of Activities pertaining to the Offer is set out below:

Activities	Original Schedule Date & Day	Revised Schedule Date & Day
Public Announcement	January 23, 2020; Thursday	January 23, 2020; Thursday
Publication of Draft Public Statement	January 30, 2020; Thursday	January 30, 2020; Thursday
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	February 06, 2020; Thursday	February 06, 2020; Thursday
Last Date for a Competitive Bid*	February 24, 2020; Monday	February 24, 2020; Monday
Receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	March 02, 2020; Monday	August 05, 2020; Wednesday **
Identified Date***	March 0	

जनसत्ता, 20 अगस्त, 2020 9

फार्म ए	
सार्वजनिक उद्घोषणा	
 <i>[इन्वोल्वेन्सी एण्ड दिवालिआयन बोर्ड ऑफ इंडिया (रबीछेक परिसमापन प्रक्रिया)] विनियमन, 2017 के नियमन 14]</i>	
विस्टा कन्सोल्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ	
कारपोरेट व्यक्ति का नाम	: विस्टा कन्सोल्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
निगमन की तिथि	: 16 नवम्बर, 2018
कारपोरेट व्यक्ति जिस प्राधिकरण के अन्तर्गत निगमित है	: कारपोरेट कार्य मंत्रालय
CIN	: U32209DL2018PTC341900
पंजीकृत कार्यालय का पता	: जे-59, बी के दत्त कॉलोनी, जौर बाग के अपोजिट नई दिल्ली-110003
परिसमापन प्रारम्भ की तिथि	: 18 अगस्त, 2020
परिसमापक का नाम एवं पता	: श्री नितेश कुमार सिन्हा <p>आधिकारिक संख्या: IBBU/PA-002/IP-N00280/2017-18/10838, 8ए, यूजी, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद-201010</p> ईमेल: info@csnitesh.com सम्पर्क विवरण: 9871500827
दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	: 17 सितम्बर, 2020

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि **विस्टा कन्सोल्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड** का स्वीछेक परिसमापन w.e.f.18 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ हो गया है।

विस्टा कन्सोल्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड के हितधारक एतद्वारा आह्वान किया जाता है कि वे अपने दावों का एक प्रमाण परिसमापक के उपरोक्त वर्णित पते पर **17 सितम्बर, 2020** या उससे पहले प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सभी अन्य हितधारक दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप, डाक द्वारा अथवा इलेट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। दावों के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करना दंड की आकर्षित करेगा।

परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर:	
हस्ता/—	
 नितेश कुमार सिन्हा	
परिसमापक	
तिथि : 19 अगस्त, 2020	
स्थान : नई दिल्ली	

PUBLIC NOTICE

“फॉर्म नं. आईएससी-26
(कम्पनी (निगमन) विनियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
कम्पनी के पंजीकृत पते का एक से दूसरे राज्य में
स्थानांतरण के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (निगमन) विनियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तीनगार्ड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN U31909DL2012PTC230308) के मामले में
पंजीकृत पता : खड्क्यूजेंड 106 / 101, रजौरी गार्डन एक्स., दिल्ली—110027
.....रायचक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपना पंजीकृत पता **“एनसीटी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य”** स्थानांतरित करने के उद्देश्य से मंगलवार 4 अगस्त 2020 को आयोजित विशेष आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडस ऑफ एरसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव देती है।

कम्पनी के पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की प्रतियों से चौध दलों के अंदर निम्नलिखित शिथिलताएं पत्र के माध्यम से **एप्रिल—21** **पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर दर्ज कर सकता है या किसी के माध्यम से या पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक को इस पते पर भेज सकता है – बी—2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 साथ ही, एक हलफनामा (एग्युरेशन) के माध्यम से निदेशक को सूचित करने के लिए अपेक्षा की जाती है। इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी के नीचे लिखे पंजीकृत पते पर भी भेजना होगा :

खड्क्यूजेंड 106 / 101, रजौरी गार्डन एक्स., दिल्ली—110027	
आवेदक के लिए और उसकी ओर	हॉबीन दुग्गल
कृते तीनगार्ड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी सचिव
तिथि 20 अगस्त 2020	सदस्यता संख्या : 55624
स्थान : नई दिल्ली	

अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लि. (CIN: U01111UP1985PLC010776)
पंजी. कार्यालय: सीएम/28, 1 ला तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
Phone: 0120-2866880
E-mail: info@amritcorp.com / Website: www.amritcorp.com

अबो वकील: साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (‘‘एजीएम’’) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘‘वीसी’’) / ऑडियो विजुअल माध्यमों में (‘‘ओवीवीएम’’) द्वारा शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को 3.30 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सामाजिक दूरी का उपाय पूर्वापेक्षा है तथा कॉर्पोरेट क्रियाकलाप मंत्रालय (एमसीए) के सर्वमूल में, 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्वमूल नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 (‘‘एमसीए सर्वमूलस’’) के, साथ पठित सर्वमूल नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के अनुसार किसी साहसिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘‘वीसी’’) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (‘‘ओवीवीएम’’) द्वारा वार्षिक साधारण सभा (‘‘एजीएम’’) के आयोजन की अनुमति दी गई है। अधिनियम के प्रावधानों तथा एमसीए सर्वमूलस के अनुपालन में यह एजीएम वीसी/ ओवीवीएम के द्वारा आयोजित की जा रही है।

एमसीए सर्वमूलस के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के साथ एजीएम की सूचना 18 अगस्त, 2020 को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। सदस्यगण यह ध्यान रखें कि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 कम्पनी की वेबसाइट www.amritagro.com पर भी उपलब्ध होगी। यह एजीएम की सूचना एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी भेजी जा सकती है।

यदि आवश्यक कम्पनी/ डिपॉजिटरी के पास ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019-20 का वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिये निम्नलिख विवरणों को प्राप्त करने हेतु अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिये एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें। वीसी/ओवीवीएम द्वारा सभा में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

सदस्यगणों को पुनः सूचित किया जाता है कि:

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम स्थल पर मतदान करने हेतु पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि 4 सितम्बर, 2020 है।

ग) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी तथा गुरुवार, 10 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) को बंद होगा।

घ) यदि कोई व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं, तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अथवा आरटीए, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड की info@masserv.com पर अनुगोच भेजकर लॉगिन आईडी तथा पारवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत है तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पारवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ङ) सदस्यगण यह ध्यान रखें कि (i) ऊपर प्वाइडेंट ‘ग’ में वर्णित परिस्थितियों एवं समय के बाद मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी; ii) किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के पश्चात उन्हें उसमें परिवर्तन की बाद में अनुमति नहीं दी जायेगी; iii) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; iv) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एजीएम से पूर्व ही अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु सभा में फिर से मतदान करने के लिये वे अधिकृत नहीं होंगे; तथा v) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभधारों रूखमियों के रजिस्टर में शामिल होगा, के वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

च) श्री बलदेव सिंह कस्तुरवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस-3616 एवं सीपी नं. 3169) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। छ) रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में वर्णित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/समस्या श्री हरश शर्मा/जी.बी. शेयर विभाग, सीएम-28 (प्रथम तल), गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.), टेली 0120-4506900, 0120-2866880, फ़ैक्स: 0120-4506910, ईमेल: info@amritagro.com को संबोधित की जा सकती है।

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के अनुपालन में यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के इन्क्विटी शेयरधारकों के शेयर अंतरण पुस्तक शामिल, 5 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक पुस्तकों की वार्षिक कोलोर के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये	
हस्ता./—	
तिथि : 19 अगस्त, 2020	(जया वजाज)
स्थान : गाजियाबाद	प्रबंध निदेशक

<div></div> <div> DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD. 1, Saket, Meerut - 250 003 Ph: 0121-2648151-52, 2651801 Fax:0121-2651803 e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com website: www.djrl.org.in</div>
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is schedule to be held on Friday, the 28 th Day of August, 2020 at 2:00 p.m. at Meerut inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30 th June 2020.
The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.djrl.org.in)
For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited SD/- (PRIYA GUPTA)
Place : Meerut Date : 20.08.2020 Company Secretary & Compliance Officer

<div></div> <div>GLOBUS SPIRITS LIMITED CIN : L74899DL1993PLC052177 Regd. Office: F-4, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.1&2, Ishwer Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065 Ph:011-66424600, Fax:011-66424625 E-mail:corpsecret@ceinglobusgroup.in, Web:www.globusspirits.com</div>
NOTICE OF POSTPONEMENT / RESCHEDULE OF BOARD MEETING
In terms of the Clause 29 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the upcoming meeting of the Board of Directors of the Company, which was scheduled to be held on Wednesday, the 19th August, 2020, got postponed and the next Board Meeting has been rescheduled for Monday, the 24th August 2020, inter-alia, (i) to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1 st Quarter ended on 30th June, 2020; (ii) to fix the date & venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2019-20 to be the Book Closure date for the purpose of AGM. The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website.
For Globus Spirits Limited Sd/- Santosh Kumar Pattanayak (Company Secretary)
Dated : 18 th August 2020

<div></div> <div>एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (सीआइएन: L27109DL1995PLC38407)</div>
पंजी. एवं संबुक्त कार्यालय: बानी कारपोरेट वन टॉवर, सुईट नं. 308, तीसरा तल, प्लॉट नं. 5, जिला कॉमर्सियल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025
टेली: +91-011-48593300, फ़ैक्स: +91-011-48593320,
www.mblinfra.com, ईमेल: cs@mblinfra.com

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुवर्ती 2019-20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के साथ वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से केवल कंपनी के शेयरधारकों (सदस्यों) को प्रदान की जायेगी। कंपनी उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस भेजेगी जिन्होंने एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और/या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तंतरण एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। भौतिक रूप में इन्क्विटी शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे अपनी ईमेल आईडी info@mblinfra.com या delhi@linkintime.co.in पर ईमेल भेजकर कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत हो सकते हैं। डीमॉटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के साथ अपनी ईमेल आईडी एजेंट करके भी की आवश्यकता होती है। एजीएम की कार्यवाही में भाग लेने, मतदान करने और देखने एवं विवरण तथा निर्देश एजीएम नोटिस में दिए जाएंगे।

कृते एम्बीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. ह./— अनुभव महेश्वर
कंपनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2020

<div></div> <div>ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 1/22, आसफ अली रोड, दिल्ली—110002 CIN: L51909DL1990PLC041701 वेबसाइट: www.oscar-global.net</div>


ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड की 29वीं वार्षिक साधारण सभा

सदस्यों से आग्रह है कि वे ध्यान रखें कि ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड (‘‘कम्पनी’’) की 29वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘‘वीसी’’) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 (‘‘अधिनियम’’) के लागू होने वाले प्रावधानों कारपोट कार्य मंत्रालय (‘‘एमसीए’’) द्वारा जारी सर्वमूल नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्वमूल नं. 17/2020, तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्वमूल नं. 20/2020, तिथि 5 मई, 2020 के अनुपालन में 29वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

29वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ईमेल आईडी ‘ज एजीएम/कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के लिये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट्स (‘‘आरटीए’’), इंटर पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड, जी-65, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 के पास ईमेल भेजकर/लिखकर उसे पंजीकृत करा लें।

29वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.oscar-global.net पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

<div></div> <div>यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, दोनों रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। यह पद्धति जिसमें भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया के लिये निर्देश 29वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।</div>
ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड के लिये
हस्ता./—
(करण कनिष्ठा वर्मा)
प्रबंध निदेशक
तिथि: 18.8.2020
स्थान: नोएडा
DIN: 00034343

<div></div> <div>जगत ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआइएन : L74999DL1982PLC014411 पंजीकृत कार्यालय : 208, मेनम हाउस-II,कर्मपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015 दूरभाष : 011-45099162, ई-मेल : jagatgadingenterpriseslimited@gmail.com, वेब : www.jtel.co.in</div>
--

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित खातों, रिपोर्ट के साथ उन सदस्यों के पास, जिनके ई-मेल पते आरटीए/डीपीकरण के साथ पंजीकृत है, भेजी गयी सूचना में उल्लिखित विवरणों के अनुसार प्रकाश के लेन-देन हेतु कम्पनी के शेयरधारकों को सौतिलाई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वात कम्पनी के पंजीकृत पते 208, मेनम हाउस-II, कर्मपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015 पर आयोजित की जायेगी।

कथित समेकित वार्षिक रिपोर्ट रटिक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.mscei.in) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.jtel.co.in) पर उपलब्ध है तथा साथ ही प्रसिद्ध हेतु कम्पनी के पंजीकृत पते पर एजीएम की तिथि तक कार्यालयी चोटि के दौरान सभी कार्यविधिगत कार्यों में उपलब्ध है, भेजी गयी सूचना पर मतदान का अधिकार प्रयोग करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्य बैठक स्थल के अतिरिक्त किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (‘‘ई-वोटिंग’’) का उपयोग करते हुए अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएँ प्रयोग की हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम आयोजित करने की सूचना की प्रति वलित यूजर आईडी एवं पारवर्ड तथा रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों के पास भेज दी गयी है। एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग हेतु सर्वसंगत का प्राकृत रटिक एक्सचेंज (www.mscei.in), सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग तथा सिस्टम उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) www.evotingindia.com कम्पनी के आरटीए (www.skylinertsa.com) तथा कम्पनी (www.jtel.co.in) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रार. (भा.मा.र.) से प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। उपा्युक्त तिथि तथा समय के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 1 सितम्बर, 2020 तक जिन व्यक्तियों के नाम सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे केवल वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा समय-समय पर यथासंशोधित सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्य के रजिस्टर तथा कम्पनी को शेयर अंतरण पुस्तिका कम्पनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बुधवार, 9 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियां शामिल) तक बन्द रहेंगी। यथासंशोधित कम्पनी (प्रत्यन्त एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं यथासंशोधित सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी एजीएम को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वॉटिंग कोर्रेस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो सभाओं (ओवीवीएम) की सुविधा प्रदान कर रही है। जो सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र हैं वे ई-वोटिंग हेतु प्राप्ताधिकृत सुविध लॉगिन विवरणों का उपयोग करके ई-वोटिंग वेबसाइट <http://evotingindia.com> पर लॉगिन करके एजीएम की कार्यवाही देख सकते हैं। सदस्यों को वेबसाइट की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निदेशक मण्डल ने निम्नलिख एवं पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु संबंधक के रूप में डी.पी. गुप्ता, मेमर्स परसोपेरा एसोसिएट्स (कंपनी सचिव फर्म), पंजीकरण सं. एफ2411 तथा सी.पी. नं. 1509 को नियुक्त किया है। संबंधक ई-वोटिंग को प्रारंभ की सुविधा देने के पश्चात किन्तु प्रकाश वोटों की समाप्ति 21 सितम्बर, 2020 से पूर्व यथासंभव अंतिम तिथि प्रस्तुत करेंगे। संबंधक की रिपोर्ट के साथ परिणाम गुरुव रटिक एक्सचेंज एनएसडीएल के पास आयाचित कर दिया जायेगा।

शेयरधारक ई-वोटिंग, वोटिंग कोर्रेस तथा अन्य ऑडियो विजुअल (ओवीएम) हेतु निर्देश के लिए सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) आरटीए/सर्टीए (www.skylinertsa.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.jtel.co.in) एक्सेस कर सकते हैं।

कम्पनी से सम्बन्धित ढंग से सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी डीपी/आरटीए-एफरटीए/कम्पनी के साथ अपडेट करें।

ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पुष्टताछ, मुद्दे या निष्कासन के लिए सदस्य देख सेक्शन के तहत www.evotingindia.com पर उपस्थित एमएएसएल एवं ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा help.desk.evoting@cdsindia.com पर लिख या ई-मेल कर सकते हैं या आरटीए के पास info@skylinertsa.com, admin@skylinertsa.com पर लिख या ई-मेल कर सकते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते जगत ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेज लिमिटेड	
ह./—	
दिनांक : 17.08.2020	पी.के. गोड (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली	डीआइएन : 00021153

<div></div> <div> बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda वैशाली शाखा सी 1 महालक्ष्मी टॉवर, सैक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी-201010</div>
निगम-8 (1) प्रतिपत्ति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत
कक्षा सूचना (अवल सम्पत्ति हेतु)
जबकि अग्रोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिस्थितियों के प्रतियुक्तिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2012 (कैसा को 54) के प्रारंभ के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, वैशाली शाखा, गाजियाबाद, यू.पी. का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक मेमर्स आशीष स्टेशनरी प्रोप. श्री दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार और गारंटर अनूप कुमार पुत्र श्री दीप चंद को दिनांक 19.03.2020 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि के 26,46,477.00 (रु. छब्बीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्ताहत्तर मात्र) दिनांक 26.46,477.00 (